

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAदिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257038
SG-DL-E-10092024-257038असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 178
No. 229]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946	[N. C. T. D. No. 178

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (सामान्य) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

सं.फा. 9/09/2010/गृह सा./1955-1961.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएन (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 06.09.2018 की इस सरकार की अधिसूचना सं.फा. 9/09/2010/गृह (सा0)/2297-2303 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से संबंधित पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई जाने वाले बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “मैट्रन” के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(1) इन नियमों को दिल्ली कारागार मैट्रन, भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
- ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन का स्तर:—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि:—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता:—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

- (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा:

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव** :—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	मैट्रन
2.	पदों की संख्या	:	176 *(2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100/-रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट आधार पर है अथवा चयन — सह वरिष्ठता अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18 वर्ष तथा 27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	I. शैक्षिक योग्यताएं :— अनिवार्य:— किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10+2 (सीनियर सैकेंडरी) उत्तीर्ण II. शारीरिक मापन का मानक:— ऊंचाई : 157 सें0मी0 (गोरखा/गढ़वाली/डोगरा तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिये 5 सें0मी0 तक छूट)। टीप: शारीरिक मापदंड के लिये कोई छूट ग्राह्य नहीं। III. चिकित्सा मानक (क) दृष्टि 6/6 बिना चश्मा के दोनों आंखें, रंग अंधता से मुक्त। (ख) प्रत्याशियों के घुटने आपस में न भिड़ें, पैर सपाट न हो, आंखों में स्फीत/शिरा या भेंगापन न हो और उनकी रंग पहचान क्षमता संबंधी दृष्टि उत्कृष्ट होनी चाहिए। (ग) उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य श्रेष्ठ हो और वे किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष से मुक्त हो, अपने कर्तव्यों

		<p>को कुशलतापूर्वक करने में किसी प्रकार की बाधा की संभावना न हो ।</p> <p>IV. (क) शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी):-</p> <p>(क) चार मिनट में 800 मीटर दौड़</p> <p>टीपः जिन्होंने दौड़ उत्तीर्ण कर ली है वे आगे निम्नलिखित परीक्षाओं के योग्य होंगे:</p> <p>(ख) 9 (नौ) फुट लम्बी कूद (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा) ।</p> <p>(ग) 3 (तीन) फुट ऊंची कूद (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा) ।</p> <p>(ख) महिला भूतपूर्व सैनिक के लिये शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी):-</p> <p>(क) 800 मीटर की दौड़:- आयुवार — समय 30 वर्ष तक — 4 मिनट 31 से 40 वर्ष — 4, 1/2 मिनट 41 वर्ष तथा अधिक — 5 मिनट</p> <p>(ख) लम्बी कूद:- आयुवार (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा) 30 वर्ष तक — 9 फुट 31 से 40 वर्ष — 8 फुट 41 वर्ष तथा अधिक — 7 फुट</p> <p>(ग) ऊंची कूद:- आयुवार (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा) 30 वर्ष तक — 3' 31 से 40 वर्ष — 2' 9" 41 वर्ष अधिक — 2' 6"</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा टीप:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी । (ग). (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/-रुपये) के पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा (ख) कॉलम (7) के अर्न्तगत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले ।
11.	यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया	: लागू नहीं

	जाना है		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (वित्त) – सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव

टीप: मूल अधिसूचना दिनांक 26.04.2012 की सं.फा. 9/09/2010-गृह(सा0)/1699-1705 के द्वारा अधिसूचित की गई थी तथा बाद में निम्नानुसार संशोधित की गई:-

क्र.सं.	फाइल संख्या	दिनांक
1	फा. 9/09/2010-गृह(सा0)/2297-2303	06.09.2018

HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2024

No. F.9/09/2010/HG(G)/1955-1961.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/09/2010/Home (G)/2297-2303 dated 06.09.2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make rules for the post of **Matron** in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:-

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Delhi Prisons Matron Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and level of pay—The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications—No Person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and

other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NUMBER OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION CUM SENIORITY OR NON SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER, QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Matron	176* (2024) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial	LEVEL-3 (Rs. 21700 - Rs. 69100) in the pay matrix	Not Applicable	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	I. Educational Qualifications:- Essential:- 10+2 (Senior Secondary) pass from a recognized board/institute. II. Standard of Physical Measurement:- Height: 157 cms. (relaxable by 5 cms for candidates belonging to Gorkhas/Garhwali/Dogras and Scheduled Tribe candidates). Note: No relaxation permissible for Physical standard. III. Medical Standard:- (a) Vision 6/6 without glass both eyes, free from colour blindness. (b) The candidates must not have bow-legged, knock-knees, flat-feet varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. (c) They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which is likely to interfere with the efficient performance of the duties. IV. (A) Physical Endurance Test (PET):- a. 800 Mts Race in 04 Minutes. Note : Those who qualify in the race shall be further eligible to appear in the following tests: b. Nine feet Long Jump (qualifying in three chances). c. Three feet High Jump

						(qualifying in three chances). (B). Physical Endurance Test (PET) for female Ex-Servicemen:- a. Race of 800 Meters:- Age wise - Time Upto 30 years - 4 Minutes From 31-40 years - 4 ^{1/2} Minutes From 41 & above - 5 Minutes b. Long Jump:- Age wise (qualifying in three chances) Upto 30 years-9 feet From 31 – 40 years-8 feet From 41 & above- 7 feet c. High Jump:- Age wise (qualifying in three chances) Upto 30 years- 3' From 31 – 40 years-2'9" From 41 & above- 2' 6"
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR THE DIRECT RECRUIT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, (IF ANY).	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY DEPUTATION / PROMOTION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	By direct recruitment <u>Note:</u> vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Govt./States Govt./UTs. (a) (i) holding analogous posts on regular basis: or (ii) with 3 years regular service in the post in the Level-2(Rs. 19900-63200) in the pay matrix; and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under	Not applicable	Group 'C' DCC (for considering confirmation) 1. Principal Secretary/ Secretary (Power) - Chairman. 2. Head of Department concerned - Member. 3. Deputy Secretary (Finance) - Member <u>Note:-</u> Senior most member of the Departmental Confirmation committee shall act as	Not Applicable

		column (7).		Chairperson in case notified Chairperson of the Departmental Confirmation committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	
--	--	-------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy.

Note:- The Principal Notification was notified vide No. F.9/09/2010/Home(G)/1699-1705 dated 26.04.2012 and subsequently amended as under:—

Sl. No.	File No.	Date
1	F.9/09/2010/Home (G)/2297-2303	06.09.2018